

Assignment

Subject: - Hindi

Class: - IV


Teacher: - Ms. Jitender Kaur

Name: _____ Class & Sec: _____ Roll No. _____ Date: 30.03.2020

प्र०। संज्ञा की परिभाषा तथा उसके भेद लिखो :-

उ० परिभाषा - किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं।

संज्ञा के भेद



1. **व्यक्तिवाचक संज्ञा** - जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे - क) लाजमहल आगरा में है।
 ख) शाहजहाँ खान फिल्म अभिनेता है।
 ग) कुतुबमीनार दिल्ली में है।

2. **जातिवाचक संज्ञा** - जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, प्राणी या स्थान की पूरी जाति या वर्ग का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे - क) हाथी सरोवर में नहा रहा है।
 ख) बच्चे फिल्म देख रहे हैं।
 ग) बगीचे में फूल खिले हैं।

3. **भाववाचक संज्ञा** - जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति तथा स्थान के गुण - दोष, अवस्था तथा स्वभाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं।

- जैसे - क) गन्ने में मिठास कम है,
 ख) बकसूँ प्यूस से बोलो,
 ग) कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई नापो।

अभ्यास

1. नीचे दिए शब्दों को संज्ञा शब्द ढूँढकर सही जगह पर लिखिए,

उडान, जर्मिया, चिडियाघर, तोता, लिखवाट, आहिसा, बाक्स,
 प्रियंका, मौसफा, अबदुल कलाम, इंडिया गेट, मिस्ट्री

| व्यक्तिवाचक संज्ञा | जातिवाचक संज्ञा | भाववाचक संज्ञा |
|--------------------|-----------------|----------------|
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |

2. संज्ञा शब्दों को वर्गीकृत करो :-

- क. लालकिला दिल्ली में है,
 ख. तिब्बत भारत की भाग है,
 ग. संतुलित भोजन करना चाहिए,
 घ. साचिन तेंडुलकर प्रसिद्ध खिलाड़ी है,